






Class: VIII

Sl. No.	SUBJECT	Homework/Assignment	Subject teacher name & signature
1	English	<p>LITERATURE – Draw a picture of your granny’s favourite hobby and write 10 point related to her hobbies on A4 sheet.</p> <p>Grammar – write all the tenses structure in your copy with two examples.</p> <p>Writing – write a paragraph writing on: Schools of the Past vs Schools of the Future (ch -3)</p>	<p>Arti</p> <p>Guz</p> <p>R.K. Mandal.</p>
2	Hindi	<ol style="list-style-type: none"> घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं के नामों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम एवं तद्भव लिखकर अभ्यास करें। अभ्यास सागर पाठ 4 के आधार पर अलंकार की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण लिखकर याद कीजिए। ‘अच्छे पड़ोसी के गुण’ पाठ के आधार पर अपने किन्हीं चार पड़ोसियों के गुण – अवगुण की समीक्षा कीजिए। अपने मुहल्ले की सफ़ाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पाठ 1 से 6 तक का प्रश्नोत्तर याद करें। 	<p>अप</p>
3	Sanskrit	<ol style="list-style-type: none"> प्रथम पाठस्य श्लोकानाम् अर्थं लिखत। कश्चिदेकं श्लोकं लिखित्वा तत्संबंधितं प्रश्नोत्तरं संस्कृते लिखत। स्वर सन्धिं चार्धेपरमध्ये प्रदर्शयत। बालक, लता, फल, मुनि, साधु, मति, अस्मद्, युष्मद्, तत्, एतत्, किम्, इत्यादयः शब्दरूपाणि अभ्यास - पुस्तिकायां लिखित्वा स्मरत। पठ्, गम्, भू, दृश्, कृ, धातुरूपाणि (पञ्च लकारेषु) अभ्यासपुस्तिकायां लिखित्वा स्मरत। 	<p>अप</p>
4	Maths	<p>Project 1: Perfect Square Investigation</p> <ol style="list-style-type: none"> What minimum number must be added to 1850 so that the result becomes a perfect square? Find the perfect square obtained after adding the required number. Find the square root of the obtained perfect square. 	<p>अप</p>

		<p>Chapter 3: Direct and Inverse Variation</p> <p>Project 2 Train and Platform Investigation</p> <p>A train 180 m long crosses a platform 220 m long in 20 seconds.</p> <p>1. Find the total distance covered by the train while crossing the platform.</p> <p>2. If the speed increases to 90 km/h, how much time will the train take to cross the same platform?</p> <p>Project3: Prepare square and cube table of no 1-25</p>	
5	Science	<p>1. Comparison between plant and animal cell, also draw the diagram for both.</p> <p>2. Concept map of force and pressure.</p> <p>3. Uses of alloys.</p> <p>4. Alloy – Constituents and uses.</p> <p>Learn textbook question-answers:</p> <p>Q1 – Cell</p> <p>Q3 – Metal and Non-Metal</p> <p>Q4 – Force and pressure</p>	
6	Social science	<p>1. Collect the popular slogans during the freedom struggle of India and write them on placards .</p> <p>2. What would happen if there were no rules and regulations in the School? Make a list of of duties to be followed by the students in classes .</p> <p>3. Prepare for PT -I Exam .</p>	  


Academic I/C


Co-ordinator


14/05/26
Principal